

## प्रेस नोट

### फोनपे ऐप हैक करके खाते से ऑनलाइन चार लाख रुपए की फर्जी तरीके से धन निकासी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जनपद गोरखपुर के निर्देशन , पुलिस अधीक्षक अपराध व क्षेत्राधिकारी अपराध/ गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल टीम को लगाया गया था । थाना गुलरिहा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 234/ 19 धारा 419, 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट के अनावरण हेतु साइबर सेल की टीम लगी हुई थी मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना गुलरिहा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना मे सम्मिलित अखिलेश कुमार पुत्र रमेश निषाद निवासी ग्राम गोनहा पोस्ट म नसूरगंज थाना पनियरा जनपद महाराजगंज को 02 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त सिम के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

#### अभियुक्त का नाम व पता-

अखिलेश कुमार पुत्र रमेश निषाद निवासी ग्राम गो नहा पोस्ट म नसूरगंज थाना पनियरा जनपद महाराजगंज

बरामदगी:- 02 अदद मोबाइल फोन, घटना मे प्रयुक्त सिम।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- पटेल इण्टर कालेज भटहट बाजार के पास, दिनांक: 21-08-2019, 15 :20 बजे ।

#### घटना किये जाने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने एक मोबाइल पाया , जिसके फोनपे वॉलेट में काफी पैसे थे। मैंने फोनपे वॉलेट को हैक करके कुल **04 लाख** रूपये अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया उसके बाद अपने एसबीआई बैंक व आन्ध्रा बैंक खातों में **02-02 लाख** रूपये ट्रांसफर कर दिए।

#### पुलिस टीम का नाम:-

1. निरीक्षक श्री असलम सिद्दीकी अपराध शाखा जनपद गोरखपुर ।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
3. उप निरीक्षक श्री महेश कुमार चौबे प्रभारी साइबर क्राइम सेल।
4. आरक्षी शशि शंकर राय साइबर क्राइम सेल ।
5. आरक्षी शशिकांत जायसवाल साइबर क्राइम सेल।
6. आरक्षी मनोज यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
7. आरक्षी राम भजन यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।